

# देखभाल तथा अवसर के लिए योजना



## स्वास्थ्य देखभाल के लिए तेज़, बेहतर पहुंच

ऑंटारियो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सभी पहलुओं को बेहतर बनाना और बदलना जारी रख रहा है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो, जब और जहाँ इसकी आवश्यकता हो। इस बजट में, अगले तीन वर्षों में \$5 बिलियन से अधिक का एक अतिरिक्त निवेश सेवाओं तक अधिक और बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, और अपने प्रियजनों की देखभाल से जुड़े तनाव और समय को कम करने में भी मदद करेगा।



### मानसिक सेहत महत्वपूर्ण है

सारे ऑंटारियो में लाखों और ज़्यादा बच्चों, नवयुवकों तथा बालिगों के लिए मानसिक सेहत तथा लतों संबंधी सेवाओं तक बेहतर तथा तीव्रतर पहुंच मुहैया करना - कुल वित्त पोषण को चार सालों में \$17 बिलियन से अधिक तक लाते हुए।



### मजबूत अस्पताल, बेहतर देखभाल

देखभाल के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करके, प्रतीक्षा के समय को कम करने के लिए, 2018-19 में एक अतिरिक्त \$ 822 मिलियन निवेश के माध्यम से क्षमता के मुद्दों को संबोधित करते हुए और ओन्टारियो की बढ़ती और बज़ुर्ग आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पतालों में सुधार करना।



### दवा और चिकित्सकीय लागत को कम करना

एक नए ऑंटारियो ड्रग तथा डेंटल प्रोग्राम की शुरुआत करना, जो कार्यस्थल में सेहत संबंधी लाभों के बिना या OHIP+ या दूसरे सरकारी प्रोग्रामों के द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले लोगों के लिए हर साल योग्य निर्धारित दवाओं तथा दंत्य खर्चों का 80 प्रतिशत, प्रति अकेले व्यक्ति के लिए \$400, प्रति जोड़े के लिए \$600 तथा दो बच्चों वाले चार लोगों वाले परिवार के लिए \$700 तक वापस करता है।

## ज़्यादा मज़बूत अस्पताल, बेहतर देखभाल

ऑंटारियो:

- 10 साल के दौरान अस्पतालों के निर्माण और उनको पुनर्निर्मित करने के लिए \$19 बिलियन का निवेश करना , सिककिडज़ के नए पेशेंट केयर सेंटर के डिज़ाइन और निर्माण के लिए लगभग \$2.4 बिलियन, और औटवा अस्पताल के सिविक कैम्पस पुनर्विकास के डिज़ाइन और निर्माण के लिए \$1.8 बिलियन के सहित।

## OHIP+ के साथ फार्माकेयर का विस्तार करना

ऑंटारियो:

- OHIP+ के माध्यम से प्रिसक्रिप्शन 65 वर्ष और उससे अधिक के लिए पूरी तरह से मुफ्त कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी सीनियर नागरिक को कभी भी आवश्यक दवाओं के बिना ना रहना पड़े। ओन्टारियो ड्रग बेनिफिट वार्षिक कटौती और को-पे को समाप्त करके, यह औसत ओन्टारियो सीनियर को प्रति वर्ष \$240 की बचत करता है।
- OHIP+ के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मुफ्त प्रिसक्रिप्शन प्रदान करना जारी। 1 जनवरी, 2018 को शुरू करने के बाद से लगभग 3 मिलियन प्रिसक्रिप्शनों पर दवाएँ बिना शुल्क के दी गई हैं।
- ऑंटारियो में लगभग दो में से एक लोगों के लिए प्रिसक्रिप्शन दवाओं की लागत को कवर करना - लगभग 6.4 मिलियन लोग - OHIP+ के माध्यम से और एक सार्वभौमिक फार्माकेयर कार्यक्रम के लिए आंदोलन का नेतृत्व करना जो सभी कनाडाई लोगों के लिए प्रिसक्रिप्शनों को मुफ्त करने के लिए मैडीकेयर का विस्तार करता है।

## मानसिक सेहत महत्वपूर्ण है

ऑंटारियो:

- प्रारंभिक हस्तक्षेप को सक्षम करने और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए अगले दो वर्षों में ओन्टारियो में हर हाई स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच प्रदान करना।
- बच्चों और युवाओं सहित सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित मनोचिकित्सा तक पहुंच बढ़ाके, प्रांत भर में 350,000 एनज़ाइटी और डिप्रेशन के साथ अधिक लोगों की सहायता करना।
- चार साल में 2,475 अधिक सहायक आवास इकाइयों को उन लोगों के लिए जोड़ना, जिनको सुरक्षित, सस्ती और उचित आवास में देखभाल की आवश्यकता होती है।
- सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए कम से कम 15 अतिरिक्त युवा कल्याण केंद्र बनाना, 12 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवा अंतराल को भरना और वयस्क सेवाओं के लिए अवस्थांतरों में सुधार करना।

- एक नई स्थानीय सेवा प्राथमिकता निधि की स्थापना, जो एलजीबीटीक्यूआई 2 एस, जातीयवादी, फ्रैंकोफोन, नवागंतुक और ग्रामीण युवा लोगों के लिए, जो कि अल्प सुविधा प्राप्त हैं, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन को मजबूत करेगा।

## देखभाल करने वालों और परिवारों की सहायता करना

ऑंटारियो:

- नए सीनियर हैल्दी होम प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा है। यह बूढ़े सीनियरों की घर पर रहने से जुड़ी लागतों को पहचानता है, जहां वे रहना चाहते हैं। यह 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीनियर नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले योग्य घरों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और अपने घरों को बनाए रखने की लागतों की भरपाई करने के लिए सलाना \$750 तक का लाभ प्रदान करता है।
- घर और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करना, जिनमें शामिल है निजी सहायता के 2.8 मिलियन और घंटे और 284,000 अधिक नर्सिंग भेंटें, तीन वर्षों में \$650 मिलियन निवेश के माध्यम से।
- दैनिक देखभाल की मात्रा बढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति को लॉंगटर्म देखभाल घरों में औसत चार घंटे की देखभाल प्राप्त होती है।
- अगले 10 वर्षों में 30,000 नए लॉंगटर्म देखभाल बेड बनाने - 2022 तक 5,000 नए बेड जोड़कर - उन लोगों की मदद करने के लिए जो अब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और उन लोगों के लिए मन की शांति प्रदान करना जो उनकी परवाह करते हैं। यह नए बेड 30,000 मौजूदा पुनर्विकसित किए गए बेडों के आलावा हैं।